

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जमुई

पत्रांक - ८५ / जमुई, दिनांक - ०३.०१.२०२३

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक / पोस्ट मास्टर
.....Bank at Baroda. Jamui

विषय :- शीर्ष MR-3054 अन्तर्गत पैकेज सं०- MR-N/22-23 JAMUI/..५.. के एकरारनामा
हेतु प्राप्त अग्रघन की राशि सत्यापन के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयांकित कार्य के एकरारनामा में अग्रघन स्वरूप BG/FD NSC प्राप्त हुआ है, जो कि आपके बैंक से निर्गत एवं प्रतिज्ञित है। कृप्या इसका सत्यापन किया जाय।

क्र०	धारक का नाम	निबंधन सं० / दिनांक	BG/FD/NSC No./ Account No.	राशि	टेंडर आईडी०
१.	Sitendrasingh	2.1.2023	40210300004647	RS-1166000/-	120642
				11,66000/-	

We confirm the
issuance of above mentioned
F.D.



विश्वासभाजन

(Signature) 03/01/23

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
जमुई
MKR
3.1.2023



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
India's International Bank

Pledge E-E. Rwd Works Division (4)
Jamui

जमा पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

JITENDRA KUMAR SINGH SO MAINEJAR PRASAD SINGH SO MANAGER PD SINGH AT GADIBUKAR PS DISTT JAMUI 811307 INDIA		सावधि खाता नं./ FD A/c No	40210300004428
		सावधि सूचना नं./ FD Advice No	FDR1309222936
		कस्टमर आईडी नं./ Customer ID No	069683189
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	40210400000019
		शाखा का नाम/Branch Name	JAMUI BIHAR
योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	BXQPS7241K	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

EMD
T/S-D-7244
120642
P/14

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
776297	13-09-2022	5.50	12 Months 0 Days	13-09-2023	819882

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिवर्ष में वार्षिक है 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए हैं. 4. निवासी व्यक्ति का द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकालों) पर 1% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके बरतें रेट से 1% कम. ii). 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकालों) पर 1.5% पेनल्टी लगेंगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके बरतें रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



JITENDRA SINGH SO MANAGER PD SINGH AT GADIBUKAR PS DISTT JAMUI 811307 INDIA		सावधि खाता क्र/ FD A/c No 40210300004647
		सावधि सूचना क्र/ FD Advice No FDR0201234149
		कस्टमर आईडी क्र/ Customer ID No 069683189
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c 40210400000019
		शाखा का नाम/Branch Name JAMUI BIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - RIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N		
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	BXQPS7241K		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value
1166000	02-01-2023	6.75	12 Months 0 Days	02-01-2024	1246720

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार)/ Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है. 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज़ : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हों तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एच (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज़ : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1% कम. ii) 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागू होगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कार्ड रेट से 1.5% कम. 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature